

# मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2013 (फाल्गुन 2, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

## 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्य मंत्री, नर्मदा घाटी विकास, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

## 3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल नगर निगम द्वारा अवैध रूप से स्थापित मोबाईल टॉवरों को हटाने की कार्यवाही न किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, मण्डला जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत कांसखेड़ा-बटवार मार्ग का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम बड़ागांव में हाई स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम भीकमपुर में हाई स्कूल खोले जाने,

(ग) ग्राम बंजारी में नलजल योजना प्रारंभ किये जाने, तथा

(घ) जूना-नागदा में कब्रिस्तान की भूमि को ईदगाह की भूमि के रूप में परिवर्तित किये जाने,

(2) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के -

(क) ग्राम हड़कोहरी, सतवारा ग्रामों में हैण्ड पंप खनन किये जाने,

(ख) ग्राम धौरा, जिवारा, नडेरी ग्रामों में हैण्ड पंप खनन किये जाने,

(ग) ग्राम घुनसुर, टिकरिया, परसवारा ग्रामों में हैण्ड पंप खनन किये जाने,

(घ) जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के ग्राम खिरहनी बहरघटा परसवारा कला में हैण्ड पंप खनन किये जाने,

(ङ) ग्राम जाजागढ़, सलैया, सिहोरा, केवलारी में हैण्ड पंप खनन किये जाने,

(च) ग्राम बगदरा, जगुआ, करैला में हैण्ड पंप खनन किये जाने, तथा

(छ) ग्राम ताली रोहनिया, कुठिया, महगवा में हैण्ड पंप खनन किये जाने,

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम विजयपुर, सिगोसा, बरथरा, जैथरी लहार के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के नवीन मार्ग स्वीकृत कराये जाने,

(ख) लहार एवं आलमपुर के शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की कक्षाएँ प्रारंभ कराये जाने,

(ग) लहार क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा निर्मित क्षतिग्रस्त रोडों की मरम्मत कराये जाने,

(घ) लहार में ए.डी.जे. कोर्ट के भवन का निर्माण कराये जाने, तथा

(ङ) लहार के आई.टी.आई. कालेज के भवन की मरम्मत एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

## 5. तकनीकी शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा मंत्री, दिनांक 18 मार्च, 2011 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्रमांक 4985) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

## 6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-23 करेरा (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री रमेश प्रसाद खटीक को विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2013 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

## 7. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2013

को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”

भोपाल :  
दिनांक : 20 फरवरी, 2013

राजकुमार पांडे  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा